

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बांका-1

पत्रांक - 327 / बांका, दिनांक - 5.3.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बांका-1 ।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
Bank of Baroda
Banka ।

विषय :- Fixed Deposit/ Bank Guarantee का सत्यापन एवं प्रतिज्ञिप्त होने की पुष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक द्वारा कार्य एकरारनामा हेतु आपकी शाखा से निर्गत एवं अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिज्ञिप्त Fixed Deposit/ Bank Guarantee समर्पित किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत है-

1. संवेदक का नाम- Ajay Kumar Yadav.
2. कार्य का नाम- कटेली मोड दोना PMGSY रोड से जावरिपुर

S N.	Tender ID/ Bid ID	Details of the Fixed Deposit/ Bank Guarantee	Date of Issue	Amount
1	41723 / 41723	FD No.- 35580300005403	05.03.2020	360000.00

कृपया इसका सत्यापन करते हुए इसे अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिज्ञिप्त होने की पुष्टि करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बांका-1 ।



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledge

EE RWD WORK DIV
BANK A

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

AJAY KUMAR YADAV		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35580300005403
SO MAHESHWAR PRASAD YADAV		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0503202520
HOUSE NO 28 NEAR RAJENDRA NAGAR		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	ZHX076930
814112		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35580200000159
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	ABAPY3533B	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
360000	05-03-2020	6.00	12 Months 0 Days	05-03-2021	382091

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम। ii). 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature